


# Anant Raj Global Limited



CIN: L70100HR2016PLC065615  
Corporate Office: C-3, Qutab Institutional Area  
Katwaria Saria, New Delhi - 110016  
Tel. : 011-41244300, 011-41244344  
E-mail : [tarc@anantrajglobal.com](mailto:tarc@anantrajglobal.com) Website : [www.tarc.in](http://www.tarc.in)

March 02, 2021

To,  
The General Manager,  
Deptt of Corporate Services,  
**BSE Limited**,  
P.J. Tower, Dalal Street,  
Mumbai – 400001

**Scrip code: 543249**

To,  
The Vice President,  
**National Stock Exchange of India Limited**,  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai – 400051

**Scrip Symbol: TARC**

## **Sub: Newspaper Publication – Notice of Postal Ballot**


Dear Sir / Madam,

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper publication made by the Company on March 2, 2021 in Business Standard (English & Hindi) regarding Notice of Postal Ballot.

Kindly take the above on your records.

Yours Faithfully

**For Anant Raj Global Limited**

  
Amit Narayan  
Company Secretary  
A20094



**ANANT RAJ GLOBAL LIMITED**  
 Corporate Identity Number: L71000HR2018PC106681615  
 Registered office: G/02, MACCO, Sector-01, Gurgaon, Haryana-122505  
 Tel: 0124-5092924 Email: [tar@anantrajglobal.com](mailto:tar@anantrajglobal.com) Website: [www.tarc.com](http://www.tarc.com)  
 Corporate office: C-3, Qutub Institutional Area, Kailash Sarai, New Delhi-110016  
 Tel: 011-41244300, 011-41244344

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Pursuant to Section 110 of Companies Act 2013 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the MCA circulars (as defined below)

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and such other applicable laws, rules & regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and in terms of General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 read with General Circular No. 39/2020 dated September 28, 2020 and General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 (the "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA"), Anant Raj Global Limited (the "Company") has on Monday, March 01, 2021 completed the dispatch of Postal Ballot Notice (the "Notice") through email to all its Members who have registered their e-mail IDs with the Depository through the concerned Depository. Participants and/or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Sylvine Financial Services Private Limited ("Sylvine") for seeking their approval by way of special resolution in respect of the business mentioned in the Notice dated Saturday, February 27, 2021.

- 1) Each Member's voting rights shall be in proportion to his/her share of the Paid up Equity Share Capital of the Company as on the date of the Postal Ballot, February 26, 2021 which shall be considered for voting. A person who is not a Member as on the cut-off date is Friday, February 26, 2021 should treat this notice for information purpose only.
- 2) The Company has engaged the services of NSDL for providing Remote E-Voting facility to its Members. The Remote E-Voting facility will commence on Wednesday, March 03, 2021 at 09:00 AM (IST) and will end on Friday, April 02, 2021 at 03:00 PM (IST) (both days inclusive). Remote E-Voting will be disabled by NSDL on Thursday, April 01, 2021 at 03:00 PM (IST).
- 3) The Board of Directors has appointed Mr. P. K. Mishra of Ms. P. K. Mishra & Associates, Practising Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.
- 4) The Members of the Company are also hereby informed and requested to note that:
  - a) The necessary instructions for Remote E-Voting has been set out in the Notice dated Saturday, February 27, 2021.
  - b) Once vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
  - c) The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date.
  - d) The Postal Ballot Notice, together with Explanatory Statement, Remote E-Voting instructions and the process of email registration for non-registered Members to avail Postal Ballot Notices & procedure for Remote E-Voting, in terms of MCA Circulars, is available on the RTA's website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement is also available on NSDL's e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the website of BSE Limited, ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited, ("NSE") where shares of the Company are listed as well as website of the Company at [www.tarc.in](http://www.tarc.in).
- 5) In light of the MCA Circulars, Members who have not registered their e-mail address and in consequence could not receive the e-voting notice, may temporarily get their e-mail registered with the RTA by clicking the link: <http://bit.ly/2w5XV1R2a>. Email Registration and following the registration procedure. Post successful registration to the email, the Member of the Company would get the soft copy of the Notice and the process of voting with User ID and Password to enable e-voting for the Postal Ballot. In case of any queries, Members may write to [info@evotingindia.com](mailto:info@evotingindia.com), [admin@evotingindia.com](mailto:admin@evotingindia.com).

It is clarified that for the permanent registration of email address, the Members are, however requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository. Participants and in respect of physical holdings with the Company's RTA, Sylvine Financial Services Private Limited D-153A, 1<sup>st</sup> Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110020 by following the due procedure.

1) In terms of MCA Circulars, voting can be done only by Remote E-Voting. As the Remote E-Voting does not require a person to attend to a meeting physically, the Members are strongly advised to use the Remote E-Voting procedure by themselves and not through any other person/proxies. Further no hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent and dissent through Remote E-Voting system only.

2) In case of any query/preference pertaining to Remote E-Voting, please contact Mr. Dinesh Parashar/MS, Raj in MS Sylvine Financial Services P. Limited (Unit: Anant Raj Global Limited, D-153A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020), e-mail: [info@evotingindia.com](mailto:info@evotingindia.com)/[admin@evotingindia.com](mailto:admin@evotingindia.com), Contact No.: 011-40460199-97.

3) The results of the Postal Ballot shall be announced on or before Saturday, April 03, 2021 i.e. not later than 48 hours of completion of voting through Remote E-Voting. The same shall be posted on the Company's website [www.tarc.in](http://www.tarc.in) and on NSDL's website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and will also be communicated to the stock exchanges where the Company's shares are listed.

By the order of Board of Directors  
 For Anant Raj Global Limited  
 Anant Neergyan  
 Company Secretary  
 Date: March 01, 2021  
 Place: New Delhi

# SBI cuts home loan rates by 10 basis points

State Bank of India (SBI) has slashed interest rates on home loans by 10 basis points (bps) under its limited period offer till the month-end.

The revised rates will start from 6.75 per cent, and the linked on the CIBIL credit score. The borrower with a higher CIBIL score will be offered a lower interest rate.

For home loans up to ₹75 lakh, the rate is 6.9 per cent for a CIBIL score between 700 and 750, for a score between 751 and 800, it is 6.8 per cent and for above 800, interest will be 6.7 per cent. "The floor rate is 10-bps lower than the last best offer," said Saloni Narayan, deputy managing director (retail business), SBI.

The rates will start at 6.75% for loans above ₹75 lakh and increase with a lower CIBIL score.

"It is important to extend better rates to customers who maintain good repayment history. The affordability for the consumer increases immensely with the present offerings as EMI will be reduced," she said.

Customers can also apply from their homes via the YONO App to get additional interest concession of 5 bps. On the eve of International Women's Day, a special 5 bps concession is being made available to women borrowers.

Narayan said in January 2020, SBI's home loan portfolio had touched the ₹-trillion mark. Home loan portfolios have crossed ₹1 trillion this year. Home loan, which constitutes 23 per cent of a bank's domestic advances, has grown by 9.99 per cent year-on-year (YOY) till December 2020. The bank is aiming to double that to ₹10 trillion in five years. Last month, SBI chairman Dinesh Kharia had said the bank is expecting its home loan portfolio to touch ₹7 trillion by financial year 2023-24 (FY24).

The growth would be driven by increased desire among the youth to own homes early in life, rising incomes, and government policies like cuts in stamp duty and subsidy. Kharia had said.

# Bank credit likely to grow by 9-10% in FY22: CRISIL

SIBIRAJA PANDA  
 Mumbai, 1 March

Bank credit is expected to grow at 9-10 per cent in 2021-22 fiscal year as the economy recovers gradually from the slowdown, backed by the government's budgetary support and measures of the Reserve Bank of India, said rating agency CRISIL in its report.

Despite bank credit contracting by 0.8 per cent in the first half of the current fiscal year (H1FY21) because of the slowdown, the rating agency expects it to rise by 4-5 per cent at the end of FY21, which is a departure from its June 2020 estimate. It had earlier forecast a bank credit growth of 0-1 per cent in FY21. The change in the forecast is because of a quick economic recovery following the gradual opening up of the economy. It was further aided by the pent-up demand as well as the festive demand post the lockdown.

While growth in credit to corporates is expected to shrink in FY21 as they have deferred their capital expenditure plans, however, in FY22, corporate credit growth is likely to be in the range of 5-6 per cent, aided by the central government's infrastructure push and a likely revival in demand, according to the rating agency.

Similarly, retail loans, which have driven the bank credit growth so far, are expected to slow down to 9-10 per cent in FY21 before returning to the mid-teens growth of the past couple of years. Credit to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is expected to slow down marginally in the next fiscal year to 8-9 per cent, given the benefits of emergency credit line guarantee scheme (ECLGS) may not be available in FY21, credit to MSMEs is expected to grow by 9.0-9.0 per cent.

And the credit to the agriculture sector is expected to grow in the 6-7 per cent range in this fiscal year as well as in FY22, but a lot will depend on the monsoon.

"Overall, sharp economic recovery, along with pick-up in private investment and capex demand, drives our expectation of buoyant credit growth in the next fiscal year. A sub-normal monsoon and another surge in cases leading to localised or partial lockdowns pose downside risks," the report said.



Time period	Gross advances (₹ trn)	Growth (%)
F18	93	9.0
F19	103	11.0
F20	109	6.0
H1FY21	108	-0.8
F21(E)	116	4.0-5.0
F22(E)	128	9.0-10.0

Estimate; Source: CRISIL

# Bank credit to midsize firms up 28%: RBI

Commercial bank credit (under priority sector) to medium-size enterprises covering the manufacturing and services sector rose 27.9 per cent in 12 months up to January 2021, up from 9.3 per cent a year ago.

The Reserve Bank of India (RBI) data in the revised framework showed that the outstanding loan book stood at ₹1.63 trillion, as against ₹1.27 trillion in January 2020.

Bankers said the economic recovery has begun to translate into a rise in demand for loans.

Also, steps such as emergency credit lines and government guarantee-backed loan schemes to firms facing the brunt of the coronavirus pandemic have supported credit growth in manufacturing and services sector entities.

# Spectrum bids...

FROM PAGE 1

In the Union Budget 2020-21, the revenue target from communications services was ₹s 44,000 crore.

By the end of the first day, 37 per cent of the spectrum by quantity and 19 per cent by value was sold. Airwaves in the 800 MHz and 2300 MHz bands received the maximum response. Nearly 65 per cent of the 800 MHz spec-

in the meantime the industry can work towards building the ecosystem for the same. The industry has maintained the reserve price, especially in some bands, is very steep compared to the US, UK, Australia and Japan among others.

On December 16, 2020, the Union government approved a 4G auction that is expected to fetch the equivalent ₹3,320 trillion by offering 2251 megahertz of

support the recovery," the report said. While the policy authorities exhibit "resoluteness in their commitment" markets are showing volatility due to uncertainties.

"A shared understanding and common expectations will likely be the anchor in this turbulence. Markets have returned on the track record of authorities during the most trying year in a century."

subject to the approval of shareholders at the next general meeting. As a result, they serve on the board without shareholder approval. Sbi has also proposed to tighten rules with regard to the resignation of independent directors. "If an ID resigns from the board of a company, other commitments or personal reasons, there will be a mandatory cool-

